

# पत्रदीपिका ॥

पहला भाग ॥

श्रीयुत मिस्टर डब्ल्यू हैगडफोर्ड साहब बहादुर

मूक अंध के डॉक्टर आफ पब्लिक रनल्ट, कन्नन की

आज्ञानुसार ॥

अथ देशीय पाठशालाओं के विद्यार्थियों के लिये ॥

प्रसिद्ध कालीचरण

नारमल स्कूल के वर्क मास्टर ने बनाई ॥

## लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर के कापेखाने में कापी गई

सन् १८६८ ई०



# पत्रदोपिका ॥

—\*—\*—\*—  
प्रथम भाग ॥

—  
पुस्तक सम्बन्धी रिश्तेदारों के पत्र व्यवहार के विषय में ॥

—  
[पत्र पत्र]—विषय की ओर से गुरु को ॥

सिद्धि श्रीयुत महाराज गुरु जी श्री ई—  
को— का साष्टांग प्रणाम पङ्क्ति यहाँ कुशल  
है वहाँ सदां कुशल चाहिये ।

बहुत दिनों से आपका कोई छपा पत्र नहीं  
आया सो चित्त को आनन्द नहीं होता अब मैं  
आपके चरणों की छपा से नेपाल के महाराज के  
यहाँ २५) रुपये महीने का नौकर हो गया हूँ महा  
राजा साहिब सुभा पर बड़ी छपा रखते हैं उन्हें  
ने अपनी पाठशाला में सुभा संस्कृत पढ़ाने के अधि  
कार पर नियत किया है आपके पास कोई नौकर

## पत्रदीपिका

पत्रकी पुस्तक सटोक हो तो आप किसी लेखक  
लिखवा कर अथवा मोल मिलै तो मोल से मेरे  
स भेजिये और ४०) रुपये की छगड़ी भेजता  
इसमें पुस्तक के दाम देकर जो बाकी रहै सो  
हने दीजियेगा मैं कोई और पुस्तक मंगाऊंगा ।  
शुभ मिति कार्तिक वदी २ सम्बत् १९२२

[वत्तर पत्र]—एक की ओर से शिष्य को ।

स्वस्ति श्री २ सेवाधिकारी शिष्य—को—  
आशीर्वाद पत्रोंके यहाँ कुशल है वहाँ कुशल  
वाहिये ।

आगे तुम्हारा कार्तिक वदी २ का लिखा हुआ  
पत्र आया दत्तान्त मालूम हुआ और तुम्हारी २५)  
६० की जीविका सुनकर चित्त को बहुत आनन्द  
हुआ और तुमने जो पुस्तक नैषधकाव्य की लिखी  
सो हम तुमको ८) ६० में मोल लेकर भेजते हैं  
और ४०) ६० की छगड़ी में से ३२) ६० बाकी  
रहे सो हमने तुम्हारे नाम से हरीराम की दूकान  
पर जमा कर दिये हैं जब कोई और काम लिखोगे  
तो भेज देंगे ।

शुभ द्वि० कार्तिक शुदी २ सम्बत् १९२२

## समदीपिका

[प्र०पत्र]—पुनः की ओर से पिता को ।

सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य पिताजी श्री ई—

का—की साष्टांग प्रणाम पङ्क्ति में बड़ी कुशल है  
वहाँ सदा कुशल चाहिये ।

आगे बहुत दिन हुए कोई कृपा पर आपने  
नहीं भेजा आपने जाने के समय कहा था कि  
जब हम लाहौर में पङ्क्ति में तो तुम हमको खारण  
दिलवाना कि हम गवर्नमेन्ट स्कूल में जाकर  
वहाँ के विद्यार्थियों की अंगरेजी शिक्षा की  
रीति निश्चय करके सरकारी पुस्तकालय से  
अच्छी २ पुस्तकें जिनसे तुम्हारी विद्या की एडि  
हो मोल लेकर भेजेंगे और एक बहुत अच्छी  
वृत्ति विद्या के एडि की वहाँ के बुद्धिमानों  
और अर्थीपत्तों से निश्चय करके तुमको बतलावेंगे  
जिसे अंगरेजी भाषा में तुम बहुत शीघ्र व्युत्पत्ति  
प्राप्त करोगे इसलिये मैंने यह विनयपत्र आप की  
आज्ञा के अनुसार खारणदिलाने के लिये भेजा है  
आप अपना सब हस्ताक्षर अपने आनन्द से रहने  
का और मकाम के पते समेत लिखकर हम सब  
लोगों को आनन्द दीजिये किमधिकम् विज्ञेषु ॥

मि० मार्गशिर वदी ४ सखत् १८२३

## पचदीपिका

[७० पत्र]—पिता की चोर से पुत्र को ॥

स्वस्ति श्री चिरंजीवि आचार्यकुल—को  
की आशिष पढ़ेंगे यहाँ कुशल है वहाँ  
कुशल चाहिये ।

हम १३ जनवरी को लाहौर में दाखिल हुए  
फिर शहर और मकानों को देख कर गवर्नमेण्ट  
स्कूल भी देखा इस स्थान पर वास्तव में अच्छी  
शिक्षा होती है यहाँ मास्ट्रोस से भी हमने मुला-  
कात की तो सब को शीलवान् पाया मुख्यकर यहाँ  
के अचल मास्टर तो बड़त शील युक्त और पण्डित  
मालूम होते हैं उनसे बड़तसी बातें ऊई तो हमको  
अंगरेजी के जल्दी सीखने की यह रीति मालूम ऊई  
कि हिसाब बीजगणित और रेखागणित तो तुमको  
उर्दू भाषा में सीखना चाहिये क्योंकि ये विद्या की  
पुस्तकें हैं इनको तुम अपनी भाषा में अच्छी तरह  
समझ सक्ते हो फिर अंगरेजी की छोटी २ कथा-  
नियों की किताबें देखो तदनन्तर इतिहास और  
अदब की किताबें और लिखना और किसी को  
पढ़ाते भी रहना जिसके कि पिछला सब याद रहै ॥

शुभ मि० मार्गशिर बदी १४ सम्वत् १८२३ ।

## पंचदीपिका

[प्र०पत्र]—छोटे भाई की ओर से बड़े भाई को ।

सिद्धि श्री दादा भाई श्री पू—को—  
दखवत् पङ्के वहाँ कुशल है वहाँ सदा कुशल  
चाहिये ॥

विनय करता हूँ कि आप का पत्र जो मेरे और  
सब लड़कियों के समेत चिरंजीवि हनुमन्त किशोर  
के विवाह में संयुक्त होने के विषय में रामप्रसाद  
के हाथों आया उस पत्र के देखने से बड़ा आनन्द  
होया परंतु आज कल हमारा हाथ बड़ा तड़क  
इससे हम बड़े लज्जित हैं और मेरे हृत्तान्त के  
आप भी जानते हैं मैं तो बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें  
को देखकर चिरंजीवि हनुमन्त किशोर के विवाह  
का आनन्द देखूं परंतु लाचार हूँ बिना सामान्य  
के आ नहीं सकता ॥

अलमिति ता० २२ नवम्बर सन् १८६६ ई० ।

[उ०पत्र]—बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को ॥

स्वस्ति श्री चिरंजीवि छोटे भाई—को—  
का आशीर्वाद पङ्के वहाँ कुशल है वहाँ कुशल  
चाहिये ।

तुम्हारा पत्र चिरंजीवि हनुमन्त किशोर

## प्रबन्दीपिका

साह में लाचारी से संयुक्त न होने के विषय में  
 आया तुम्हारे तंग होने का कारण सच है इस  
 (पृ० ५००) ६० की जूझी साह बनारसीदास की  
 ज्ञान पर भेजता हूँ सो तुम अपनी सब तंगी को  
 निकाल करके विवाह में सब लड़केवांसी समेत आओ  
 और अब हम तुम्हारा कोई उजर नहीं चुनैगे  
 साह से १५ दिन पहिले आओ डील मत करो ॥  
 मि० पौष बदी ५ सम्बत् १९२३

[प० पत्र]—पोने की ओर से दादे को ॥

सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य दादा जी थी ई—  
 आ—की साटांग दखवत् पज़ने यहां कुशल है  
 हां सदां कुशल चाहिये ।  
 आगे विदा होने के समय आप ने कहा था कि  
 अगर तुम परिश्रम करके गणित विद्या सीख कर  
 पटवारी के कागजात में अच्छा अभ्यास करलोगे तो  
 मुको भेरठ के कमिश्नर साहबसे सिफारिश कराके  
 कोई अच्छी नौकरी दिलवा देंगे इस कारण मैंने  
 परिश्रम करके गणित और पटवारी के सब काग-  
 जात अच्छी तरह याद कर लिये हैं बल्कि ताची  
 जात हिन्द भी बखूबी याद करली है अब किसी



## घनद्वेषिका

अच्छे उहदे की सिफारश करा दीजिये और परीक्षा भी इन सब बातों से अच्छी तरह दे सक्ता हूँ अगर आया हो तो आप के पास हाजिर हूँ इसका उत्तर अच्छी से दया करियेगा मैं आपका हूँ आप हमारे बड़े हैं बङ्किम् मि० माघ बदी ८ सम्बत् १९२४ ।

[८० पन्ना]—दादे की खोर से पोते को ।

खलि श्री चिरंजीवि पौत्र—का—का  
 आशीर्वाद पङ्के यहाँ कुशल है वहाँ कुशल चाहिये  
 आगे तुम्हारा माघ बदी ८ का लिखा हुआ पत्र  
 आया दृष्टान्त जो लिखा सो ठीक है मैं तुमसे चलते  
 समय कह गया था सो तुमने वे सब बातें सीख ली  
 हैं तो नौकरी जल्द तुम्हारी होगी आज कल  
 कमिश्नर साहिब दौरे में हैं सो १५ दिन के पीछे  
 आवेंगे तब मैं उनसे सिफारश करके और पूर के  
 तुमको बुलाऊंगा तुम अपनी पढ़ी हुई किताबों को  
 फिर दुहरा लेना कदाचित् तुम्हारी परीक्षा ली  
 जाय तो कसर न निकले मैं उक्त साहिब बहादुर  
 के आते ही तुमको अवश्य बुलाऊंगा निःसंदेह  
 रहो शुभ मि० माघ बदी १४ सम्बत् १९२३

[प्र० पत्र]—भतीजे की ओर से चाचा को ॥

सिद्धि श्री चाचा जी श्री पू—का—का  
प्रणाम पङ्कचे यहाँ कुशल है वहाँ कुशल चाहिये ।

आपने बाबू साहिब के लिये जो चिट्ठी दी थी उसको लेकर मैं रेलसे उतरते ही उनके पास गया उन्होंने उसको पढ़कर मेरी बड़ी स्वागत की और आप से भी विशेष ध्यान करते हैं अब मद्रसे का हाल सुनिये मुझको प्रिन्सीपेल अर्थात् पाठशालाध्यक्ष के पास लेजाकर भरती करा दिया अब निश्चय है कि बाबू साहिब की छुपा से रोटी कमाने का कुछ ढंग आज्ञायुगा प्रांतःकाल श्री गंगा जी का स्नान और सायंकाल श्री विश्वेश्वर जी का दर्शन यह भी एक अलभ्य लाभ आप की छुपा से यहाँ के रहने से होता है घर में हमारा प्रणामाशिषसबसे यथोचित कह देना ॥

मि० पौष बदी ३ सम्बत् १८२३ ।

[उ० पत्र]—चाचा की ओर से भतीजे को ॥

स्वस्ति श्री चिरंजीवि भतीजे—का—की  
आशिष पङ्कचे यहाँ कुशल है वहाँ सदां कुशल चाहिये ।

आगे तुम्हारा पौष बदी ३ का लिखा हुआ पत्र आया वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त आनन्द हुआ और तुम्हारे ऊपर बाबू साहिब का जो ह सुनकर बड़ा ही सुख हुआ अब तुमको भी यही उचित है कि खूब परिश्रम करके विद्या पढो जिसे बाबू साहिब और भी प्रसन्न रहें और सदैव बाबू साहिब के कहने के अनुसार काम करना इनके ही प्रसन्न रहनेसे तुमको किसी समय तुम्हारी योग्यता से अधिक अधिकार मिल जायगा और जो कुछ खर्च की आवश्यकता हो तो हमको लिखना ॥

मि० फागुन बदी २ सम्बत् १९२३ ।

[प्र०पत्र]—बाले के लड़के की खीर से फूफा को ।

सिद्धि श्री सर्वोपमायोग्य फूफा जी श्रीई—  
को—की दण्डवत् पङ्गे यहाँ के समाचार भले हैं तुम्हारे भले चाहिये ।

आगे सुझाव बड़ा संदेह है कि आपने इस अवस्था में नौकरी क्या की मानौ गृहस्थाश्रम त्याग करके चौथेपन में काशी वास किया आपकी पूर्व दशा लिख कर आप को गृहस्थाश्रम का चरण कराता हूँ आपकी बाल्यावस्था पिता के माथे और यवा

१०१२

### पत्रदीपिका

अबला सुन्दरी के माथे सुलभचैन से सुझरी अब जो  
तुमको परमेस्वर ने लड़के वाले दिये और कोई  
सहारा नहीं रहा तो पराई ताबेदारी करनी  
पड़ी इस निमित्त कि लड़के वालों का पालन हो  
परंतु नहीं मालूम कि वहां जाकर आपको क्या  
होगया कि आप अच्छे रोजगार पर हैं और  
लड़के वाले तंगी सहते हैं इतनी ही प्रार्थना मेरी  
वज्रत समझना ॥

मि० कार्तिक शुदी ६ सम्बत् १९२६

[उ० पत्र]—पूजा की खोर के वाले के पुत्र को ॥

खस्तिशी सालपुत्र चिरंजीवि—को—की  
आश्रिष पत्रके यहां के समाचार भले हैं तुम्हारे  
भले चाहिये ।

आगे कार्तिक शुदी ६ का लिखा पत्र आया हाल  
लिखा सो ठीक मेरा हाल यह है कि बेटा जी  
हमने जो तुमसे चलने के समय कह दिया था कि  
जातेही तुम अपनी भूआ को भेज देना किस वास्ते  
कि हम हैदराबाद जाने वाले हैं यहां बैठे २ जो  
कुछ कमाया और पास का था सब खा गये तम  
जानते हो कि बैठ कर खाने में तो कुबेर का भी

खुजाना नहीं रह सक्ता फिर हम तो मनुष्य हैं और वहाँ ही हमारा गुणभी पूर्य जायगा यहाँ तो कोई टके को भी नहीं पकता और घरके लोगों बिना सब असबाब मट्टी होजायगा घरमें बैठना आलसियों का काम है ॥

मि० चैत्र वदी ५ सम्बत् १९२१

[प्र० पत्र]—दौहित्र की ओर से नाना को ॥

सिद्धि श्री सर्वोपमायोग्य नानाजी श्री ५—को  
—की साष्टांग दण्डवत् पङ्चे वहाँ के समाचार भले हैं तुम्हारे भले चाहिये ।

आगे आपका छपा पत्र आया उसके देखने से मैं बड़ा हत हत्य हुआ आपने जो मेरे लिये दृष्ट-ज्जातक और बीजवर्णित की पुस्तक भेजी सोसुभे बड़ी आवश्यक थी और रघुवंश पढ़ता हूँ अब विनय यह है कि आप सदैव छपा करते रहिये और नानी से मेरा बडत २ प्रणाम कह दीजियेगा और अपने आनन्दके समाचार लिखते रहियेगा ॥

शुभ मि० आषाढ वदी १ सम्बत् १९२०

[च०पत्र]—माता की ओर से दीहिम को ।

खरिस्ती थी दौहित्र चिरंजीवि—को—का  
आशीर्वाद पङ्गचे यहां कुशल है वहाँ कुशल  
चाहिये ।

आगे बज्रत दिवस से तुम्हारे पठन पाठन का  
कुछ वृत्तान्त नहीं सुना सा. अवश्य लिखना और  
रघुवंश काव्य तुम पूर्ण कर चुके होगे तदुपरि जो  
पढ़ो सो हमको लिखना हम जानते हैं कि कुछ  
वेदाध्ययन भी करना जरूर है किस वास्ते कि  
धर्म कर्म इसी से समझ पड़ता है आगे अपने  
माता पिता की प्रसन्नता का हाल लिखो और  
माघ के महीने में हमारी इच्छा है कि तुम्हारी  
माता को प्रयाग स्नान करने के लिये बुलावें इसका  
उत्तर तुम अपने हाथ से लिखना जिसमें तुम्हारी  
विद्या के पढ़ने का हमें भी कुछ ज्ञान हो ।

मि० कार्तिक बदी १३ सम्बत् १८२० ।

[प्र०पत्र]—भानजे की ओर से माता को ।

सिद्धि थी सर्वोपमायोग्य मामा जी थी पु—  
को—को देखवत् पङ्गचे यहां कुशल है वहाँ  
कुशल चाहिये ।

आगे आपने जो कपड़े का रोजगार हमारे सक्ते में करने को लिखा सो ठीक है रोजगारमें इतनी बातें जरूर चाहिये प्रथम तो घरका रूपया किस वास्ते कि ब्याज रूपये में नफा भर तो बोहरे की हो जायगी ब्याज की दर आज कल जवसे बढ़ महुंगी ऊँ २) ६० सैंकड़े से कम नहीं लगती सो रूपया तो तुम्हारे पास पूरकस है फिर अपने हाथ की मिहनत दिसावर जाना माल खुरी-दना गुमाशतों का कुछ भरोसा नहीं सो तुम अकेले ठहरे और हमारे पास न तो रूपया है न इधर उधर फिरने की मिहनत कर सक्ते कहो साभा कैसे निबहैगा जो कुछ बन्दोबस्त होय तो हमको लिखना मि० कार्तिक बदी ४ मंगलवार सम्बत् १९१८।

[उ०पत्र]—नामा की ओर से भानजे को ॥

स्वस्ति श्री चिरंजीवि भानजे—को—की आशिष पड़चे यहाँ कुशल है वहाँ कुशल चाहिये । आगे कार्तिक बदी ४ का तुम्हारा पत्र आया सो ठीक है सो रोजगार की सलाह तो पीछे करैगे परंतु अब हमारे माघ बदी १० का विवाह चिरंजीवि माधोप्रसाद का ठहरा है सो मुन्नाजी तुम्हको लिखते हैं

१६

## पञ्चदीपिका

कि वीवीको साथ लेकर विवाहसे दस पाँच दिन पहले आओ क्योंकि तुम्हारे बिना कोई मंडपआदि कर्म नहीं होगा सो तुम १५ दिन पहले आओ और २०/२० की जूखी भेजते हैं इसमें तुम आने समय १५/ तथा २०/ २० का कोई शाली रुमाल भाटों के देने के लिये लेते आना और जल्द आना इस थोड़े लिखे को बड़तसा समझना ॥

मि० मार्गशिर शुदी ३ सम्बत् १८१८

[प्र०पत्र]—जगद्वे की बोर से खसुर को ॥

सिद्धि श्री खसुर जी श्री ५—का—की  
दण्डवत् पङ्कचे यहाँ कुशल है वहाँ कुशल चाहिये  
आगे आप हमारे धर्म के पिता हो इसलिये  
तुमसे कथनीय वा अकथनीय कुछ क्विपाना न चाहिये  
बात यह है कि हम सदैव परदेश में रहा चाहते  
हैं और इतनी तनखाह नहीं जो नौकरों से कामलें  
और ब्रका भी खर्च चलावें और आपका धर्म यह  
था कि विवाह और द्विरागमन का करना और  
सिवाय इसके आपने इतने दिन और सहायता की  
परंतु अब नारायणने चार पैसों के हीलेसे लगत दिया  
है इसलिये उचित नहीं है कि कुछ दिवस एक साथ





रहें और आप सब जानते हैं लिखने की कृष्ण-  
आवश्यकता नहीं है जैसा मुनासिब समझे वैसा  
करियेगा ॥

शुभ सि० आश्वय शुदी २ सम्बत् १९२२

[प० पत्र]—खशुर की ओर से जगदी को ।

खस्ति श्री चिरंजीवि जामाता—को—की  
आशिष पङ्क्ति यहाँ कुशल है वहाँ कुशल चाहिये ।  
आगे आश्वय शुदी २ का लिखा पत्र आया उसको  
देखने से बड़ाही आनन्द और मिलने के समान  
खुश हुआ और तुम्हारे रोख गार खगने से बड़ा धैन  
हुआ और परदेश में सब कहते हो कि बड़े २  
कट हैं सो हम तुम्हारे लड़के वालों को चिरंजीवि  
द्वारान के साथ तुम्हारे पास भेजे देते हैं और  
सदैव अपने आनन्द के समाचार लिखते रहना ॥

शुभ सि० कार शुदी १५ सम्बत् १९२२

[प० पत्र]—बाके की ओर से बड़नोई को ।

सिद्धि श्री सर्वोपमायोग्य बीजा जी श्री ५—  
को—की दण्डवत् पङ्क्ति यहाँ कुशल है वहाँ  
कुशल चाहिये ।

आपके पौछाहाद आते समय कह गये थे कि  
 केरके हवाए कारहसौ ६० के मोल का मकान  
 खाजह हैदर अली दारोगा के समीप मिले तो  
 मोल लेना आप के करने के अनुसंधान में था  
 जो इन दिनों लाला गुस्सहाय एक मंजिला संगीन  
 मकान उक्त खाजह साहब के मकान के समीप  
 १३००) ६० में बेचते हैं अगरे खीकार हो तो  
 उस हवेली का बयनामा लिखवा रजिष्टरी करवा  
 के तेरहसौ ६० उक्त लाला साहब को दे दिये  
 जाय ॥

मि० अगहन वदी १ सवत् १९२३

[४० पत्र]—वहनों की ओर से आये को ॥

अस्तिथी सालसङ्ग ज्ञान्य—को—की दरह-  
 वत् पङ्कजे यहाँ कुशल है वहाँ सदा कुशल परिहिते  
 आप का अगहन वदी १ का लिखा पत्र आया  
 बड़ा आनन्द हुआ उसमें जो तुमने लिखा कि  
 लाला गुस्सहाय का संगीन मकान खाजह साहब  
 के समीप तेरहसौ ६० में बिकता है वह हमारे  
 रहने के लायक है तो मकान का बयनामा और  
 रजिष्टरी हमारे नाम कराके उक्त लाला साहब

को द्रव्या देकर उस कागज को हमारे पास  
सेक दे।

सुभ मि० अंगहन सुदी ३ सम्मत् १९२०

[प्र०पत्र]—निम्न-के-नाम ॥

स्वस्ति श्री उचितोपमायोग्य मित्रवर्ध श्रीः—  
को—का नमस्कार पत्रों में यहाँ कुशल है यहाँ  
कुशल चाहिये।

आगे मित्र बड़त दिनों से कोई पत्र आपका  
नहीं आया परंतु मित्रों के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ  
कि आप कोई मकान बनवाते हैं इसलिये मित्रों  
पूर्वक लिखता हूँ कि लाहौर के मकान के मापिकों  
का भी मत बनवाना जहाँ तक हो। मकान का सदन  
खुलासा और इवादार और तीनों छत के मकान  
का भी ध्यान कर लेना और रसोई का मकान  
ऐसी ओर बनवाना जिसका धुआँ मकान को  
कालान कर सके छोड़े माथ बैल को बांधने का  
भी खान खुला हुआ रखियेगा और बनाने मकान  
के पास ही एक मर्हाना मकान बैठने उठने का  
बनवाना और मर्हाने ही मकान में एक कुघरा भी  
अवश्य २ बनवाना जिसे पानी का झराम र है

और हाथान का रख उत्तर और को करना और  
अगर कुछ रुपये की आवश्यकता हो तो निबन्धे ह  
लिखना संकोच न करना मैं वहाँ से भेज दूंगा ॥  
शुभ मि० चैत्र बदी ४ सखत् १९२२

[७० पत्र]—मिल की ओर से मिल को ॥

स्वस्तिथी उचितोपमा योग्य मित्रवर्ग श्री—  
को—का नमस्कार पड़ने वहाँ कुशल है वहाँ  
कुशल चाहिये ।

आगे आप का चैत्र बदी ४ का लिखा पत्र आया  
छाती से लगाया बड़ा खेह उत्पन्न हुआ मित्र  
आप तो बड़ी छपा करते हो जो ऐसी २ बार्ते  
बतलाते हो मेरा कसूर माफ करना बहुत दिनों  
से काम फुरसत के सबब लिट्टी भेज न सका मैं  
मकान तो बनवाता हूँ और आपके लिखे के  
माफिकही सब मकान बनवाऊंगा और मित्रवर्ग  
रुपये के बाबत जो आपने लिखा सो आपका तो  
बड़ाही भरोसा है परंतु तुम्हारी छपा से इसका  
सामान इकट्ठा कर लिया है अमर प्रकृत होगी  
तो आपको लिखूंगा ॥

शुभ मि० वैशाख बदी ८ सखत् १९२३

## दूसरा भाग ॥

पुस्तक और श्री गणेशो विष्णोदारी के पेल कबडार को विषय है ॥

[पंच पत्र]—पिण्ड को और ही गुरुपत्नी को ॥

सिद्धि श्री वृत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योस्य  
सर्व भाव प्रजनीय गुरुपत्नी श्री ई—को—की  
साष्टांग दण्डवत अत्र कुशलं तत्रास्तु ।

श्री माताजी महाराणी जब से मैं गुरु महाराज  
से दो अक्षर सीखकर अपने घर आया तब से  
मैं ने कई पत्र भेजे परंतु आपका कोई जवाब  
नहीं आया इसी चिन्त में बड़ा खेद है जान पड़ता  
है कि आप मुझ से अप्रसन्न हैं मैं तो आप का  
वही लड़का हूँ जवाब रखिये और मैंने दो जोड़े  
बख एक आपको और एक गुरु जी महाराज  
को भेजा सो ग्रहण करके जवाब पूर्वक इसकी  
रसीद भेज दीजियेगा और मुझे अपना अनुचर  
समझ कर मेरे जावक काम की आज्ञा करती  
रहियेगा ॥

शुभ सिद्धि मार्चिक बदी १ सम्बत् १८२१

[४० पत्र]—एक पत्नी की ओर से पिता को ।

स्वस्ति शीवत—शुभस्थानेस्य आश्रायुवायी  
गुरुवक्ति परायणं शिष्य शी ३—**को**—**की**  
आश्रय पङ्कचे अत्र कुशलं तत्रास्तु ।

आगे बेटा श्री तुम्हारा अत्र कार्तिक वदी १ का  
लिखा आया उत्तान्त विदित हुआ और बेटा श्री  
श्री तुम्हारे पास कोई अत्र इमारत नहीं पङ्कचा  
इसका यह कारण है कि मैं दो बरस से काशी  
जी में हूँ और तुम्हारे गुरु जी किसी पुरस्करण में  
रहते हैं और सावकाश नहीं हुआ और तुम्हारे  
श्री जी हुए बस आये सुना जी तुम सब लायक हो  
ईश्वर तुम्हारी अधिक वृद्धि करे हम तुम पर बहुत  
प्रसन्न हैं ॥

शुभ मि० अगहन वदी १० सखत् १८२३ ॥

[५० पत्र]—पुत्र की ओर से माता को ।

सिद्धि शी मति—सर्वोपमायोग्य माता जी श्री ६  
—**को**—**की** दण्डवत् पङ्कचे अत्र कुशलं तत्रास्तु  
विनय यह है कि जिस दिन से आप लाहौर को  
पधारी हैं सब छोटे बड़े आप का आरण करते  
हैं आप कह नई श्री कि एक महीने बीछे मैं पत्नी

आजगीसा दो महीने व्यतीत हुए अब तक आप में कोई देर होने का कारण भी नहीं लिखा था। पर मुझे मैं आशा है कि वहाँ के डैरेक्टर साहब बहादुर के दफ्तर में लिखों की शिक्षा के वाली कई पुस्तकें उर्दू भाषा में बनी हैं उन सब में से उपकारी शिक्षा रूप चुकी है वह किताब बहिन के लिये माल लेके अवश्य भेज दीजिये और बड़ी बहिन उर्दू भाषा में अधिक परिश्रम करना चाहती हैं इसलिये उनको एक किल्द वात्सलाप करने के पत्रों की भी लेती आवें और आप जल्दी आरुधे और आने में देर हो तो देर का कारण लिखिये जिसे हमको खास्त हो। मि० कार बदी ४ सन् १९२०

[उ०पत्र]—माता की बीर से पुत्र को ॥

स्वस्ति श्री चरण सेवाधिकारी मुच—को—  
की आशिय पङ्के अत्र कुशल तवास्तु ।  
आगे बेटा तुम्हारी चिट्ठी कात्तिक बदी ।  
की लिखी अ ई उत्रको पढ़कर बड़ा आनन्द हुआ  
में कह तो गई थी पांतु वर्षा अतु में यहाँ नदिव,  
प्रकृत बड़ी इस कारण साधारी से न आ सकी

अब नदियां छतरीं और रस्ते जारी हुए से  
 तुम्हारी लिखी हुई किताबें लेकर आजंगी और  
 तुम्हारे वास्ते एक पञ्जीने का हमाल भी लाऊंगी ॥  
 शुभ मि० कार्तिक वदी ८ सम्बत् १८२०

[प० पत्र]—पौल भी और से दादी को ॥

सिद्धि थी मति दादी जी थी ई—का—  
 का साष्टांग प्रणाम पूज्ये अत्र कुशलं तत्रास्तु ।

आगे बङ्गत दिनों से आप ने मुझै कोई छपा पत्र  
 नहीं भेजा और तुम कह गई थीं कि मैं मथुरा  
 में जाते ही तेरे लिये मथुरा के अंगोछे और  
 प्रसाद भेषुंजी से अब तक नहीं भेजी और कहा  
 था कि मैं १५ दिन में बनयाचा करके आजान्गी  
 से एक महीना होमया अब जल्दी आओ और  
 चाचा जी इलाहाबाद जाने वाले हैं उनको एक  
 मथुरा की बङ्गत लम्बी डोर लेती आना और  
 मेरे लिये अंगोछे और प्रसाद के सिवाय कुछ छोड़ी  
 सी मथुरा की खुरचन भी लाना इनसब चीजों को  
 लेती हुई जल्दी से आओ ॥

शुभ मि० आषाढ वदी १२ सम्बत् १८२०



## प्रचदीपिका

[प०प०]—दादी की कोर से जीव जो ।

स्वस्ति श्रीयुत आचार्यकुल प्रीत — को — की  
आश्रय पङ्क्ति अत्र कुशलं तत्रास्तु ।

बेटा तुम्हारी आपाढ़ बदी १२ की लिखी चिट्ठी आई बड़ा चित्त प्रसन्न हुआ मेरा मन तुम्हीं में लगा रहता है और थोड़े दिनों में बीमार हो गई थी अब आनन्द है सो मैं जल्दी ही बनवाचा से निबट कर गोकुल जी और दाऊ जी के दर्शन करती हूँ खासी घाट उतरूंगी और तुमने जो २ चीजें लिखीं सो लेती आऊंगी ॥

शुभ मि० आपाढ़ बदी १ सम्बत् १९२०

[प०प०]—देवर की कोर से भावज जो ।

स्वस्ति श्रीयुत उचितोपमा योग्य भावी साहब  
— को — की प्रखाम पङ्क्ति अत्र कुशलं तत्रास्तु  
भावी साहब आप को इतनी हमारे ऊपर निठुरता न चाहिये आई साहब जब देहली गये थे तो मुझसे कह गये थे कि तुम अपनी भावी के पास चिट्ठी भेज कर जो २ उनको बस्तु चाहिये मंगवा देना सो मैंने आई साहबके कहनेके माफिक कई चिट्ठी भेजी परंतु किसी का जवाब न आया

२६

## पंचदीपिका

और न कोई फर्मायश और हम तुम्हारे लड़के के  
समान हैं जैसी आशा करी वह करै ।

शुभ मि० माघ वदी ५ सम्बत् १८२१

[प० पत्र]—भायज की खोर से देवर को ।

स्वस्ति श्रीयुत शुभस्थानेस्य सर्वोपमायोग्य देवा  
—को—की आशिष पङ्कचेअत्र कुशलं तथास्तु  
आगे तुम्हारा माघ वदी ५ का लिखा हुआ पत्र  
आका टूटाना जाना तुमतो हमारे बड़े प्रिय हो  
सुझ से भी तुम्हारे भार चलते समय कहगये थे कि  
जो कुछ आवश्यक हो सो तुम छोटे भार से लिख  
कर मंगा लेना परंतु सुझ अभी तक कोई चीज  
आवश्यक न थी इसी नहीं चिट्ठी लिखी परंतु  
अब मरमो आगर है सो मैंने सुना है कि आगरे  
की दरी बहुत अच्छी बनती है सो एक पलंग  
की दरी बहुत अच्छी सी भेजना ।

शुभ मि० चैत्र वदी १४ सम्बत् १८२१

[प० पत्र]—भतीजे की खोर से भाभी को ।

निद्रि श्रीयुतशुभस्थानेस्य सर्वोपमा योग्य चाची  
जी थी ५—को—की साष्टांग दण्डवत् अत्र  
कुशलं तथास्तु ।

आगे चाची तुमको बिनव पूर्वक लिखता हूँ कि आप देवीदीन छोटे भाई को क्यों नहीं गवर्नमेंट कालेज में भरती करा देतीं, वह बुद्धिमान है बहुत जल्दी पढ़ेगा और चाचा जी भी न मालूम क्यों भूले बैठे हैं जो उसको नहीं पढ़ाते अगर भरती कराओ तो मैं साहब से सिफारस कर दूँ वहाँ जल्दी से पढ़कर सौ घचास रुपये का नौकर हो जायगा और आज कल अंगरेजी पढ़ाने लड़कों को चाहिये क्यों कि उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है यथा राजा तथा प्रजा होना चाहिये ।

शुभ मि० वैशाख वदी ४ सम्बत् १८२२

[उ०पत्र]—चाची जी चोर से भतीजे को ।

स्वस्तिथी युत चिरंजीवि भतीजे—को  
 का आशीर्वाद पत्रं च अत्र कुशलं तथास्तु ।  
 तुम्हारा वैशाख वदी ४ का लिखा पत्र आया  
 दृष्टान्त मालूम हुआ चेटा तुमको बड़े लायक है  
 और हमारे हित की बातें लिखते हो परंतु  
 तुम्हारे भैया की तबियत बहुत दिनों से मंदाई  
 रहती है इस कारण भरती नहीं करवाया  
 देह में कुछ बल आवै तो भरती करवा दूँ औ

२८

## पंचदीपिका

शुभ अपने साहब से भी सिफारिश करदेना ॥  
१ शुभ सि० ज्येष्ठ वदी १३ सखत् १८२२

[४० पत्र]—भतीजे की ओर से फूफी को ॥

सिद्धि श्रीयुत—शुभखानेख सर्वोपसायोग्य फूफी  
की थी ई—को—की दखवत अब कुशलं तचाखु ।  
आगे फूफी तुम इतने दिन से न तो आप आईं  
और न कोई चिट्ठी पत्नी भेंजी मालूम होता है कि  
आप हम सबसे गुणा हो और हम सब तुम्हारे ही  
हैं बैशाख में तुम्हारे भतीजे आनन्दी लाल भैया  
का इटावे से विवाह ठहरा है सो तुम फागुन तथा  
तेज तक आजाओ क्यों कि तुम्ही तो हमारी बड़ी  
बूढ़ी और मान्य हो सो अग्रय आओ अगर  
सवारी न हो तो सवारी भेज दें और फूफा जी  
साथें संग आवें अथवा कुछ उनको जरूरी काम  
हो तो विवाह से १५ दिन पहले आवें ॥

सि० माघ शुदी १४ सखत् १८२०

[४० पत्र]—फूफी की ओर से भतीजे को ॥

खलि श्री युत—शुभखानेख सर्व प्रिय चिरंजीवि  
भतीजे—को—की आशिष प्रहंचे अब कुशलं तचाखु

आगे माघ सुदी १४ का लिखा हुआ पत्र पढ़कर श्रीबि आनन्दी लाल के विवाह के मद्दे आया देख कर बड़ा सुख हुआ सुन्ना जी में गुणा नहीं हूँ बहुत दिन से तुम्हारे फूफा की तबियत अच्छी नहीं थी अब आराम हुआ है सो मैं विवाह से १५ तथा २० दिन पहले आऊंगी और विवाह के समय मंडप के दिन तुम्हारे फूफा आ जायेंगे और जो कुछ काम वहाँ का हो सो भी लिखना ॥

शुभ मि० फागुन वदी ५ संवत् १९२०

[प्र० पत्र]—भास्के जी और से मामी को ।

हिंदी युत—शुभस्थानेऽर्चितोपमा योम्य  
मामी जी —को—की राम राम पड़ंचे अब  
कुशलं तवास्तु ।

मामी बहुत दिनों से मैंने चाहा कि तुम से मिलूं परंतु ऐसा कोई योग नहीं बनता और मामा जी तो हमसे मिलके अष्टसर को गये हैं और यह कह गये हैं कि तुम अपनी मामी को यह लिख भेजना कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम नीची केही पास रहो अकेला रहना अच्छा नहीं है यहां तो अपने भातजों में हिंस्र मिल

३०

पत्रदीपिका

कर रहेगी और हमको भी विश्वास रहेगा इस कारण हम लिखते हैं कि तुमको हम पर खेह हो तो आनन्द से हमारी मत्त के सहय रही आगे जैसा उचित हो को लिखना ॥

सुभ मि० कार्तिक सुदी १३ सम्बत् १९२१

[७० पत्र]—माँ की ओर से आनन्द की ।

स्वस्ति शीयत चिरंजीवि भानजे—को—  
की आशिष पङ्के अत्र कुशलं तत्रास्तु ।  
आगे तुम्हारा कार्तिक सुदी १३ का लिखा हुआ पत्र आया देख कर हाती बड़ी शीतल हुई और नेटा की तुम तो हमारे लड़के के तुल्य ही हो और लायक बरहो जो ऐसा हमको लिखते हो और तुम्हारे मामा भी तुमको लायक समझ कर ऐसा कह गये परंतु यह तो बताओ कि बीबी की भी मरजी है क्यों कि वे हमारी पूज्य और बड़ी हैं जैसा हमसे कहें वैसा मैं करूँ ॥

सुभ मि० अगहन बदी ११ सम्बत् १९२१

[७० पत्र]—दोस्त की ओर से नानी की ॥

स्निहि शी—सुभखानेख सर्वोपमायेभ्य नानी

जी—को—की प्रथम यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ।

आगे जानो तुम जबसे जैपुर गई हो तबसे कोई  
चिट्ठी नहीं आई और तुमने तो यही कहा था  
कि मैं मुष्कर जी खान करिके यीशुही आजाऊंगी  
थो तुम यीशु आओ और जब वहाँ से चलो तो  
दो चादरे और दो चूंदरी अन्ना को लेती आना  
और कोई जैपुर की रंगी पगड़ी मेरे लिये लाना ॥

शुभ मि० वैशाख वदी ५ संवत् १८२३

[उ०पत्र]—जानी की चोर से दौड़ित को ॥

स्वस्ति श्री—शुभखानेचिरंजीवि आम्नातुक्कल  
दौहित्र—को—की आग्रिम पत्रके यहाँ आ-  
नन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे तुम्हारी वैशाख वदी ५ की चिट्ठी आई  
हाल मालूम हुआ सुन्ना जी वहाँ गनगौर का  
बड़ा मेला होता है उसके देखने के लिये तुम्हारे  
मामा वहाँ रह गये और चलो नहीं इसी से देर  
होगई अब मैं मुष्कर खान करिके जल्दी आऊंगी  
मेरा जी तुम्हारे और तुम्हारी मा के देखने को

३२

पत्रदीपिका

घटकै है सो जानो गे ॥ शुभ मि० जेट बदी ११  
सम्बत् १९२३

[प० पत्र]—बहिन के बेटे की चोर के मौसी को ॥

सिद्धि स्त्री—शुभखाने सर्वोपमायोग्य मौसी जी  
—को—का प्रणाम वहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ।

मौसी हमारे पास मौसा जी की चिट्ठी अलवर  
से आई है उसमें लिखा है कि हम बहुत प्रसन्न  
हैं और अपनी मौसी से भी कह देना कि मैं २५  
तथा ३० दिन पीछे सब कामों से निवृत्त कर  
आऊंगा सो तुमको लिखता हूँ कि मौसा जी ने  
लिखा है कि अगर तुम्हारी मौसी कुछ खर्च चाहे  
तो तुम दे देना सो मौसी जो कुछ खर्च या और  
कोई हमारे लायक काम हो सो लिखना हम  
पुरस्त करेंगे जो खर्च चाहिये तो भेजदं और  
हमारे भैयाओं से प्रणामाग्रिष कह दीजिये ॥

शुभ मि० बैसाख बदी ९ सम्बत् १९१९

३

[प० पत्र]—मौसी की चोर के बहिन के बेटे को ।

सिद्धि स्त्री—शुभखाने सर्वोपमायोग्य चिरंजीवि



—को—की आशिष पड़ेंगे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे बैशाख बदी ६ का लिखा पत्र आवा वृत्तान्त जाना और बेटा तुमने अपने मौंसा के सुख समाचार सुनाकर मेरे चित्त को बड़ा आनन्द दिया तुम सुपात्र हो भगवान् तुम्हारी हजारी उमर करै मुन्ना जी खर्च मेरे पास अभी महीने भर तक को तो है फिर तेरे मौंसा आर्द्र जांचगे कदाचित् बेटा तुम्हारे मौंसा १ महीने में न आवै तो १०) ६० खर्च को भेजि दीजियो और सब छोटे बड़ों को प्रणामाशिष ॥

शुभ मि० ज्येष्ठ बदी १ सवत् १९२१

## तीसरा भाग ॥

स्त्रियों की ओर से स्त्रियों केही विषय में ।

[प्र० पत्र]—माता की ओर से बेटों को ॥

स्त्रिणी आचानुसूल बेटो—को—की  
आशिष पङ्कचे ॥

बेटो मेरा चित्त तुम्ह में बद्धत भटकै है सो एक  
बिरियां आजा में बद्धत रोगिनी हूं कहीं मरजा-  
जंगी तो मेरा जी तुम्ही में रहैगा इच्छे शीघ्र आइ-  
यो और तेरा भैया भी तुम्हको बद्धत याद करै है  
और मूल बात यह है कि जो मैं जारा भी अच्छी  
हो जाऊंगी तो गणेश जी का उद्योपन कहूंगी  
सो तुम्हेंही देना विचारा है मैंने सब तैयारी कर  
रक्खी है ॥

सुभ मि० आषाढ बदी १ सम्बत् १९२०

[उ० पत्र]—बेटों की ओर से माता को ॥

सिद्ध श्री युत—सुभस्थाने सर्वोपमायोग्य मा जी  
श्री ई—को—का मिलना पङ्कचे यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे मा मैं बद्धत शीघ्र आऊंगी और भैया ने  
इतने दिनों से मुझे नहीं बुलाया और मैं कुछ तेरे

उद्यापन के लोभ से नहीं चाऊंगी मैं भी तुम्हें देखना और भैया से मिलना चाऊँ हूँ और मा जो तू कहै तो मैं दिल्ली से भैया के लिये अच्छी टोपियाँ और चीरे लेती चाऊँ वहाँ चीरे अच्छे रंगे जाय हैं और टोपियों पर कलानमून यही बड़ी चतुराई से बड़त अच्छा और सस्ता लगाते हैं वहाँ की टोपी का सुन्दर काम होता है ॥

शुभ मि० आषाढ शुदी २ सम्बत् १९२०

[प्र० पत्र]—दादी की ओर से पोती को ॥

स्वस्ति श्री—शुभस्थाने कुलतारा पोती—  
को—का आशिष पङ्कचे वहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ।

आगे बिठिया बड़त दिन से तुम्हारी कार्र चिट्ठी नहीं आई रश्मे तुम्हारा सुख समाचार नहीं पाया और बेटी जल्दी से अपने आनन्द के समाचार लिखना सुभे खप ज़ुआ है कि कुछ तेरी देह में रोग ज़ुआ से मेरा यह सन्देह तेरी चिट्ठी बिन नहीं जायगा और बेटी तेरे बाप ने एक गोदान किया था सो तुम्हीं को दिया है उसके

३६

### बचदीपिका

रुपयों की ऊँची भेजूं हूँ से लेकर रसीद जल्दी भेजियो और वहाँ की आव हवा तुमको अच्छी है या नहीं से लिखना ॥

शुभ मि० भाद्र पद दृष्ट्या ३ सम्बत् १८२१

[च०पत्र]—पोती की ओर से दादी को ॥

सिद्धि थी युत—शुभखाने सर्वोपमा योग्य दादी थी पू—को—का मिलना पड़चे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे दादी आपकी भाद्र पद दृष्ट्या ४ की लिखी चिट्ठी आई वृत्तान्त मालूम हुआ और दादी तुमने जो खप में मुझे बीमार देखा सो सब सुब ठीक हुआ इच्छे जाना गया कि तुम्हारी मेरे ऊपर चित्त से दया रहती है क्यों कि खप में बड़धा वही दीखता है जो पहले कभी किया हो अथवा मनमें विचार हो और यहाँ की आव हवा अभी तक मुझे नहीं माफकत आई और पिता को भी मेरा बड़त २ दण्डवत् कहना ऊँची आई और रुपये भी वसूल कर लिये ॥

शुभ मि० भाद्र पद दृष्ट्या १४ सम्बत् १८२१ इसी प्रकार परदादी को भी जानो ॥

[प०पत्र]—देवराणी की ओर से जिठानी को ॥

सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा योस्य  
जिठानी जी श्री पू—को—का पैरौं पड़ना  
पड़चे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

आगे जिठानी जी तुम्हारे पास कई चिट्ठियाँ  
भेजी परंतु उत्तर किसी का भी नहीं आया क्या  
शुभसे तुम अप्रसन्न हो मैं तो तुम्हारी आज्ञा में  
हूँ और तुम्हारे देवर भी तुम्हारी स्तुति किया  
करें हैं और भाभी जी नहीं हैं तो हमारी बड़ी  
बूढ़ी तुमहीं हो मैं चिरंजीव ब्रजलाल का मूढ़न  
कराया चाहती हूँ हमारे मूढ़न गङ्गा पर होता  
है वह किस महीने में होता है सो लिखना और  
मूढ़ने में तुम्हें भी आना होगा मैं अभी से बुलावा  
दे रखती हूँ ॥

शुभ मि० फागुन बदी ३ सम्बत् १९२०

[प०पत्र]—जिठानी की ओर से देवराणी को ॥

स्वति श्री—शुभस्थानेस्य उचितोपमायोस्य देव-  
राणी—को—का मिलना पड़चे यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे तुम्हारी फागुन बदी ३ की लिखी चिट्ठी  
आइं समाचार जाने और बोर जो तुमने लिखा कि

मने कई चिट्ठियाँ भेजीं सो मेरे पास इस चिट्ठी के सिवाय पहिले कोई चिट्ठी नहीं आई और चिरंजीवि बज्रलाल का मूढ़न जो करने की इच्छा है तो रामघाट में बलियो और समय परमै भी अवश्य पङ्कंगी चलो इसी बहाने गंगा का स्नान तो होगा और मूढ़न सदैव अगहन और फागुन और वैशाख में होता है ॥

शुभ मि० चैत्र शुदी २ सम्बत् १८२०

[प्र० पत्र]—नगद की ओर से भावज को ॥

स्वस्ति श्री युत—शुभस्थाने विराजमान भावज—  
का—का मिलना पङ्कचे यहां आनन्द है वहां  
आनन्द चाहिये ।

भाभी बज्रत दिन से भैया को मैंने नहीं देखा  
सो देखना चाहती हूं सो भैया से कह देना जो  
यमद्वितीया को आजावें यहां मथुरा जी में यम-  
द्वितीया को विश्राम घाट पर स्नान करने का  
बड़ा माहात्य है ओर उस दिन बहन के यहां  
भोजन करना चाहिये सो वह जरूर २ आवे और  
जो न आवे तो मैं अगहन में आजंगी और मेरे  
माघ में रुकमा बीबी का विवाह है सो भाभी  
शुभको और भैया को दोनों को आना पड़ेगा भात

न्योतने के बहाने जाऊंगी सो भैया से भी मिलि  
जाऊंगी ॥

शुभ मि० आश्विन शुदी १५ सम्बत् १८२१

[उ०पत्र]—भावक की खोर से नन्द को ।

सिद्धि थी युत—शुभस्थाने विराज मान कुल  
मान्या नन्द—को—का पैरों पड़ना पड़ंचे  
यहां आनन्द है वहां अनन्द चाहिये ।

आगे बीबी जी तुम्हारा पंच आया पढ़ कर  
छाती शीतल छड़ें क्योंकि तुम हमारी कुल पुज्य  
होके इतना सहेह करो हो और बीबीजी तुम्हारे  
भैया तो यमद्वितीया को आवेंगे और उस दिन  
मथुरा में विश्रान्त पर स्नान होगा और भोजन  
तुम्हारे ही घर करेंगे परंतु तुमने जो अगहन में  
आने को कहा है सो अवश्य आना सुभे भी तुमसे  
बहुत सी बातें पूछनी हैं और तुम्हारी बीबी के  
विवाह की भी सलाह करेंगे सो तुम सौ काम  
छोड़ कर आना और सुभे भी अपनीही समझना  
तुम हमारी बूढ़ी और मान्य हो ॥

शुभ मि० कार्तिक वदी २ सम्बत् १८२१

[प्र०पत्र]—धेवती की ओर से नानी को ॥

सिद्धि शीघ्रतः शुभस्थानेस्य सर्वोपिमा योग्य नानी  
शी पू—को—का मिलना पङ्कचे यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ।

नानी जब से तुम वृन्दावन गई हो तभी से मुझे  
ज्वर आता है सो तुम जल्दी से आओ और अन्ना  
भी कुछ दुखी होरही है सो तुम्हारे आने से सब  
को आनन्द हो जायगा और वहाँ से चलौ तो  
एक लोई का जोड़ा चार तथा पाँच रुपये का  
लोती आना मेरे पास कोई ऊर्ण बख नहीं है और  
एक ऊर्ण बख सदैव गृहस्त को रखना चाहिये  
और मथुरा से एक गंगा जमुनी धोती चौके को  
लम्बी चौड़ी सी एक जोड़ी लाना और कंठी भी  
लाना ॥ शुभ मि० मार्गशिर बदी २ सम्बत् १९२०

[उ०पत्र]—नानी की ओर से धेवती को ॥

स्वस्ति शीघ्रतः—शुभस्थाने परम पूज्या धेवती  
बेटी—को—की आशिष पङ्कचे यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे मार्गशिर बदी २ की लिखी पत्री आई  
समाचार जाने बेटी तुम बीमार होगई हो तो



से रहना और किसी घर के आदमी को हाथी बाबू बालमुकन्द लाल डाक्टर साहब की औषध खाना उनके हाथ में ईश्वर ने यज्ञ दिया है वे बड़े भले मनुष्य हैं और सबका इलाज मन लगा कर करते हैं उनकी तीन पुष्टियाँत्रों में कौ-साही ज्वर हो, जाताही रहताहै सो और किसी हकीम या वैद्य की औषध मत करना और मैं भी जल्दी आज्ञां हूँ तुम्हारी लिखी चीजों को भी लेती आज्ञांगी ॥

शुभ मि० मार्गशिर वदी १२ सम्बत् १९२०

[प्र० प्रम]—भानजे की खोर से मामी को ॥

सिद्धि थी ५—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योस्य मामी  
—को—का मिलना पङ्गचे यहाँ आनन्द है  
वहाँ आनन्द चाहिये ।

आगे मामी तुमने तो इतनी क्वाती कठिन कर-ली कि हमपर थोड़ा भी खेह नहीं करती और मामां जी तो मुझको इतना प्यार करते हैं कि जब जैपुर से आये एक चूंदरी बड़त सुन्दर मुझे देगये और अब गाजीपुर गये थे तब एक सुरख बूंद को लहंगे का धान मुझे देगये और अम्मा को

१५) रूपये देगये और तुमने कभी कोई आंगी भी नहीं दी इसतो माई तुम्हारा बड़ाही भरोसा रखें हैं सो देवा भाव हमारे ऊपर तुम्हारी भी हो तो बज्रत उत्तम है हम मान्य हैं हमारा दिया निःफल नहीं जायगा ॥

शुभ मिति वैशाख शुक्ला ११ सम्बत् १८२०

[च० पत्र]—मामी की ओर से भागजी को ॥

सिद्धि श्री युत—शुभस्थाने दानपात्र मानाधि-  
कारिणी भानजी —को—की आधिष पङ्कचे  
यहां कुशल है वहां कुशल चाहिये ।

आगे तुम्हारी वैशाख शुक्ला ११ की लिखी  
चिट्ठी आई वृत्तान्त जाना बीबी तेने जो लिखा कि  
तेरी कठोर काती है सो तुमने काहे से जाना यह  
सब चीजें जो जैपुर आदि से लाये वे सब मेरे ही  
कहने से तुम्हारे यहां पङ्कचीं और ऐसी बात  
बेटी हमको कभी मत लिखना क्यों कि इसमें ह-  
मारी औ तुम्हारी दोनों की बुराई है जो बीबी  
कहतीं तो वाजबी था क्योंकि वे हमारी बड़ी बूढ़ी  
और मान्य हैं उन्हीं को योग्य है ॥

शुभ मिति आपाढ़ वदी ८ सम्बत् १८२०

[३७ पत्र]—बहिन की बेटों को खोर से मौंसी को ॥

सिद्धि शीघ्रत—शुभस्थानेस्य मौंसी जी शी ५—  
को—का मिलना पड़चे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ।

मौंसी मेरी माता ने कह दिया है कि जब  
तक मैं जगन्नाथ जी का दर्शन न कर आऊं तब तक  
तू जीजी के पास रहियो और जो वह कहे, सो  
करियो सो मौंसी जैसी हमारी मा है वैसी ही  
तुम हो सो माता जी और दादा जी तो जगन्नाथ  
को यात्रा कर गये और मैं अभी चाची के पास  
हूँ सो तुम कोई सवारी भेज दो तो मैं तुम्हारे पास  
चली आऊँ आगे जैसा मुनासिब हो सो लिखना ॥

शुभ मि० फागुन बदी ११ सम्बत् १९२२

[४० पत्र]—मौंसी को खार से बहन की बेटों को ॥

खसि शीघ्रत—शुभस्थानेस्य बेटों—को—  
का आशिष पड़चे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ।

आगे बीबी फागुन बदी ११ की लिखी चिट्ठी आई  
दृष्टान्त ज्ञात हुआ और मेरी बहिन जो मेरे पास  
रहने का तुम्ह से कह गई है सो ठीक है सुभसे भी

कहा मेजा था परंतु यह तो बता कि तेरी चाची तुमसे कौसा खेह करती है मेरे पास आने से वह बुरा तो न मानेगी मैं गाड़ी तेरे लिये भेजूं तो फिरी न आवै और बीबी यह भी तेरा घर है जहाँ खुशी हो वहाँ रहे। चिट्ठी का उत्तर जल्दी भेजियो जब जवाब आवैगा तभी गाड़ी भेजूंगी ॥

शुभ मि० फागुन शुदी ७ सम्बत् १९२२

[प्र० पत्र] बहनेंकी की ओर से बहनेंकी को ॥

स्वस्ति श्रीयुत उचितोपमा योग्य धारी बहनेंकी  
—को—की रामराम यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ।

आगे बहिन तुमने कोई चिट्ठी पची नहीं लिखी मैं बाट देखती थी और कुक लड़के वाले होने का भी उत्तान्त नहीं लिखा और बहिन हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ शेर का दूध और उसके नख कहीं से आये हैं सो बहिन जो आये हैं तो एक नख और जरासा दूध सुझै भी भेज दीजियो मेरे चिरंजीवि पिरधारी को बड़धा नजर कुनजर होजाती है सो जीजी किसी आदमी के हाथों अथवा मैं किसी को भेजूं उसको दे दीजियो

बड़ा उपकार होगा ॥ शुभ मि० वैशाख वदी ३  
सम्बत् १९२२

[उ०पत्र]—बहनेली की खोर से बहने की को ।

अस्ति शीघ्रत शुभस्यानेख उचितोपमा योग्य  
बहनेली—को—की रामराम यहां आनन्द  
है वहां आनन्द चाहिये ।

आगे बहिना तेरी वैशाख वदी ३ की लिखी  
चिट्ठी आई बड़ी खुसी हुई और बहिना तैने शेर  
का दूध और शेर के नख के लिये लिखा सो मेरे  
पास दो नख और थोड़ा सा दूध आया था सो  
नख तो मैंने चिरंजीवि भगवान् दीन के सुवर्ण के  
कठले में मढ़वा दिये और दूध थोड़ा सा है सो  
मैं किसी के हाथों उसको तेरे पास भेजदूंगी और  
नख कहीं से फिर आजायगे तो अवश्य तेरे पास  
भेजूंगी विश्वास रख और कुशल छेम की चिट्ठी  
पत्री भेजती रहियो ॥

शुभ मि० वैशाख शुदी १२ सम्बत् १९२२

पंचदीपिका  
प्रथम भाग ॥

पुरन हनुमन्वी रिष देदारी के पत्नों के शिरनामं ॥

- १ प्रअपच सिद्धि श्री युत महाराज गुरु जी श्री ई  
—को—की साष्टांग प्रणाम पङ्कचे यहाँ  
कुशल है वहाँ सदा कुशल चाहिये ॥
- २ उत्तरपच खस्ति श्री युत सेवाधिकारी शिष्य—  
को—का आशीर्वाद पङ्कचे यहाँ कुशल  
है वहाँ कुशल चाहिये ॥
- ३ प्र०प० सिद्धि श्री युत सर्वोपमा योग्य पिताजी  
श्री ई—को—का साष्टांग प्रणाम पङ्कचे  
यहाँ कुशल है वहाँ सदा कुशल चाहिये ॥
- ४ उ०प० खस्ति श्री चिरंजीवि आज्ञानुकूल—को  
—की आशिष पङ्कचे यहाँ कुशल है  
वहाँ सदा कुशल चाहिये ॥
- ५ प्र०प० सिद्धि श्री दादा भाई श्री पू—को—की  
दण्डवत् पङ्कचे यहाँ कुशल है वहाँ कुशल  
चाहिये ॥
- ६ उ०प० खस्ति श्री युत चिरंजीवि छोटे भाई  
—को—का आशीर्वाद पङ्कचे यहाँ कु-  
शल है वहाँ कुशल चाहिये ॥

- ७ प्र०प० सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य दादा जी श्री  
—को—की साटांग दण्डवत् पङ्गु चैयह  
कुशल है वहां कुशल चाहिये ॥
- ८ उ०प० स्वस्ति श्री युत चिरंजीवि पौत्र—को—  
का आशीर्वाद पङ्गु चैयहां कुशल है वहां  
कुशल चाहिये ॥
- ९ प्र०प० सिद्धि श्री युत चाचा जी श्री ५—को  
—का प्रणाम पङ्गु चैयहां कुशल है वहां  
कुशल चाहिये ॥
- १० उ०प० स्वस्ति श्री युत चिरंजीवि भतीजे—को  
—की आशिष पङ्गु चैयहां कुशल है वहां  
कुशल चाहिये ॥
- ११ प्र०प० सिद्धि श्री युत सर्वोपमा योग्य फूफा जी  
श्री ६—को—की दण्डवत् पङ्गु चैयहां  
के समाचार भले हैं वहांके भले चाहिये
- १२ उ०प० स्वस्ति श्री युत शालपुत्र चिरंजीवि—  
को—की आशिष पङ्गु चैयहां के समा-  
चार भले हैं वहां के भले चाहिये ॥
- १३ प्र०प० सिद्धि श्री युत सर्वोपमा योग्य नाना जी  
श्री ६—को—की साटांग दण्डवत् पङ्गु चै

यहाँ के समाचार भले हैं तुम्हारे भले चाहिये ॥

- १४ उ०प० स्वस्ति श्री युत दौहित्र चिरंजीवि—को  
का आशीर्वाद पङ्क्ति में यहाँ के समाचार  
भले हैं तुम्हारे भले चाहिये ॥
- १५ प्र०प० सिद्धि श्री युत उचितोपमा योग्य मामा  
जी श्री पू—को—की दण्डवत् पङ्क्ति में यहाँ  
के समाचार भले हैं तुम्हारे भले चाहिये
- १६ उ०प० स्वस्ति श्री युत भानजे चिरंजीवि—को  
—की आशिष पङ्क्ति में यहाँ के समाचार  
भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥
- १७ प्र०प० सिद्धि श्री युत श्वसुर जी श्री पू—को  
—की दण्डवत् पङ्क्ति में यहाँ के समाचार  
भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥
- १८ उ०प० स्वस्ति श्री युत चिरंजीवि जामाता—को  
—की आशिष पङ्क्ति में यहाँ के समाचार  
भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥
- १९ प्र०प० सिद्धि श्री युत सर्वोपमायोग्य जीजा जी  
श्री पू—को—की दण्डवत् पङ्क्ति में यहाँ के  
समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥



- २० उ०प०स्वस्ति श्री युत शास्त्रभद्र योग्य—को—  
की दण्डवत पङ्कचे यहां के समाचार  
भले हैं वहां के भले चाहिये ॥
- २१ प्र०प०स्वस्ति श्री युत सर्वोपमायोग्य मित्रवर्य  
—श्री३ को—का नमस्कार पङ्कचे यहांके  
समाचार भले हैं वहां के भले चाहिये
- २२ उ०प०स्वस्ति श्री युत सर्वोपमायोग्य मित्रवर्य  
श्री ३—को—का नमस्कार पङ्कचे यहां  
के समाचार भले हैं वहां के भले चाहिये
- २३ प्र०प०स्वस्ति श्री युत रोग नाशक वैद्य राज  
जी श्री ५—को—का प्रणाम पङ्कचे यहां  
के समाचार भले हैं वहां के भले चा-  
हिये ॥
- २४ उ०प०स्वस्ति श्री युत—को—की आशिष  
पङ्कचे यहां के समाचार भले हैं वहां  
के भले चाहिये ॥
- २५ प्र०प०सिद्धि श्री युत सर्वोपमा योग्य मौसा  
जी ५—को—की दण्डवत पङ्कचे यहांके  
समाचार भले हैं वहां के भले चाहिये ॥
- २६ उ०प०स्वस्ति श्री युत चिरंजीवि—को—का

## पञ्चदीपिका

आशीर्वाद पङ्क्तियों के समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

२७ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योग्य सकल गुण सागर समधी जी —  
को—का नमस्कार पङ्क्तियों के समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

२८ उ०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योग्य विराजमान परम पूज्य समधी जी —  
को—का नमस्कार पङ्क्तियों के समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

२९ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योग्य पतिदेव जी श्रीपू—को—की यथा योग्य पङ्क्तियों के समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३० उ०प०स्वस्ति श्री—शुभस्थानेस्य आशाधीना आनन्द दायिनी गृहणी —को—की यथा योग्य पङ्क्तियों के समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३१ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य उचतोपमा योग्य सेवक पावन कर्त्ता साह जी श्रीपू

को—की जैगोपाल यहाँ के समा-  
चार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३२ उ०प०खस्ति थी—सकल कार्य कर्ता—कोसाह  
—की जैगोपाल पड़ने यहाँ के समा-  
चार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३३ प्र०प०सिद्धि थीयुत सकल शास्त्र सम्पन्न परिहृत  
जी थी पू—को—का प्रणाम यहाँ के  
समाचार भले हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३४ उ०प०खस्ति थी—गुण ग्राहक—को—की  
आशिष यहाँ के समाचार भले हैं वहाँ  
के भले चाहिये ॥

३५ प्र०प०खस्ति थीयुत—शुभस्थानेस्य धर्मामूर्ति  
मंशी जी थी ३—साहब—को—का  
आशीर्वाद यहाँ के समाचार भले हैं वहाँ  
के भले चाहिये ॥

३६ उ०प०सिद्धि थीयुत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा  
योग्य मिथजी—को—कीपालागन पड़ने  
यहाँ के समाचार भले हैं वहाँ के भले  
चाहिये ॥

३७ प्र०प०जनाब खां साहब बहादुर—को—का

सलाम पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले हैं  
वहाँ के भले चाहिये ॥

३८ प्र०प०जनाब शेखजी साहिब बहादुर—को—  
का सलाम पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले  
हैं वहाँ के भले चाहिये ॥

३९ प्र०प०जनाब मीर साहब बहादुर—को—का  
सलाम पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले हैं  
वहाँ के भले चाहिये ॥

४० प्र०प०जनाब मिरजा जी साहिब—को—का  
सलाम पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले हैं  
वहाँ के भले चाहिये ॥

४१ प्र०प०जनाब मौलवी साहब—को—का सलाम  
पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले हैं वहाँके  
भले चाहिये ॥

४२ प्र०प०जनाब माखर साहब—को—का सलाम  
पङ्गुचे यहाँ के समाचार भले हैं वहाँ के  
भले चाहिये ॥

दूसरा भाग ॥

स्त्री सम्बन्धी पदों के विवरणार्थे ॥

- १ प्र०प० सिद्धि स्त्री—शुभस्थाने सर्वोपमा योग्य  
सर्व भाव पूजनीया गुरुपत्नी—को—की  
साटांग दण्डवत् अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- २ उ०प० स्वस्ति स्त्री—शुभस्थाने आम्नानुवाची  
गुरु भक्ति परायण—को—की आश्रय  
पङ्कचे अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- ३ प्र०प० सिद्धि स्त्री मति—सर्वोपमा योग्य माता  
जी स्त्री ई—को—की दण्डवत् पङ्कचे  
अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- ४ प्र०प० स्वस्ति स्त्री चिरंजीवि चरण सेवाधिकारी  
पुत्र—को—की आश्रय पङ्कचे अत्र कुशल  
तत्रास्तु ॥
- ५ प्र०प० सिद्धि स्त्री मति दादी जी स्त्री ई—को—  
की साटांग प्रणाम पङ्कचे अत्र कुशलं  
तत्रास्तु ॥
- ६ उ०प० स्वस्ति स्त्री आम्नानुकूल पौत्र—को—की  
आश्रय पङ्कचे अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥

- ५) प्र०प० स्वस्ति श्रीयुत उचितोपमा योग्य भाभी  
साहब—को—की प्रणाम पङ्के अत्र  
कुशलं तत्रास्तु ॥
- ६) उ०प० स्वस्ति श्रीयुत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा  
योग्य देवर—को—की आशिष पङ्के अत्र  
कुशलं तत्रास्तु ॥
- ७) प्र०प० सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा-  
योग्य चाची जी श्री—को—की साष्टाङ्ग  
दण्डवत् अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- १०) उ०प० स्वस्ति श्रीयुत चिरंजीवि सुखदाता पुत्र  
तुल्य—को—की आशिष पङ्के अत्र  
कुशलं तत्रास्तु ॥
- ११) प्र०प० सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा  
योग्य फूफी जी श्री ई—को—की दण्ड-  
वत् अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- १२) उ०प० स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्व प्रिय  
चिरंजीवि भतीजे—को—की आशिष  
पङ्के अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥
- १३) प्र०प० सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व उचितोपमा  
योग्य मामी जी—को—की राम राम  
पङ्के अत्र कुशलं तत्रास्तु ॥

- १४ उ०प०स्वस्ति श्री चिरंजीवि भानजे जी—को  
की आशिष पङ्कचे अत्र कुशलं तचास्तु ॥
- १५ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा-  
योग्य मानी जी—को—की प्रणाम यहाँ  
आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- १६ उ०प०स्वस्ति श्री युत शुभस्थानेस्व चिरंजीवि  
आज्ञानुकूल दौहित्र—को—की आसीस  
पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ॥
- १७ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा-  
योग्य सास जी श्री ५—को—की प्रणाम  
पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ॥
- १८ उ०प०स्वस्ति श्री युत शुभस्थानेस्व पूज्य पद—  
को—का आशीर्वाद पङ्कचे यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- १९ प्र०प०सिद्धि श्री युत शुभस्थानेस्व उचितोपमा-  
योग्य बही साली—को—की यथोचित  
राम राम पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ॥
- २० उ०प०स्वस्ति श्रीयुत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा

- योग्य ब्रह्मनेरु—को—की आशिष पङ्कचे  
यहां आनन्द है वहां आनन्द चाहिये ॥
- २१ प्र०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्व भाव  
पूज्य छोटी बहिन—को—की आशिष  
पङ्कचे यहां आनन्द है वहां आनन्द  
चाहिये ॥
- २२ उ०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्व सर्वोपमा  
योग्य दादा भाई—को—का मिलना  
पङ्कचे यहां आनन्द है वहां आनन्द  
चाहिये ॥
- २३ प्र०प०सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्व उचितोपमा  
योग्य मौसी जी—को—का प्रणाम यहां  
आनन्द है वहां आनन्द चाहिये ॥
- २४ उ०प०स्वस्ति श्रीयुत शुभस्थानेस्व सर्वोपमायोग्य  
चिरंजीवि—को—की आशिष पङ्कचे  
यहां आनन्द है वहां आनन्द चाहिये ॥
- २५ प्र०प०सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्व उचितोपमा  
समधिन—को—की राम राम यहां आ-  
नन्द है वहां आनन्द चाहिये
- २६ उ०प०सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्व उचितोपमा  
योग्य समधी जी—को—की राम राम



- यहां आनन्द है वहां आनन्द चाहिये ॥
- २७ प्र०प० स्वस्ति श्रीयुत शुभस्थानेस्य विराजमान  
पतोङ्ग—को—की आशिष यहाँ आनन्द  
है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- २८ उ०प० सिद्धि श्रीयुत शुभस्थानेस्य उचितोपमा  
योग्य सुसर जी—को—की यथोचित  
प्रणाम यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ॥
- २९ प्र०प० स्वस्ति श्रीयुत—शुभस्थानेस्य विराजमान  
परम पूज्य बेटी—को—की आशिष  
पङ्गचे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ॥
- ३० उ०प० सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा  
योग्य पिता जी श्री ई—को—का मि-  
लना पङ्गचे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ॥
- ३१ प्र०प० स्वस्ति श्रीयुत—शुभस्थानेस्य सर्वभावपूज्य  
कोटी साली—को—की आशिष पङ्गचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- ३२ उ०प० सिद्धि श्रीयुत शुभस्थानेस्य सर्वोपमायोग्य  
जीजा जी श्री ५—को—का मिलना

पङ्कचे यहां आनन्द हैं वहां आनन्द चाहिये ॥

- ३३ प्र०प०सिद्धि शीयुत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा योग्य मौंसिधी बहन—को—का प्रणाम यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- ३४ उ०प० स्वस्ति शीयुत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा मौंसिया भाई—को—का मिलना वहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥

### तीसरा भाग ॥

स्त्रियों की ओर से स्त्रियों के पत्नों के चिरभास ॥

- १ प्र०प० स्वस्ति शीयुत आत्मानुकूल बेटी—को—की आशिष पङ्कचे यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- २ उ०प०सिद्धि शीयुत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा योग्यमाजी शीई—को—का मिलना पङ्कचे यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- ३ प्र०प०स्वस्ति शीयुत शुभस्थानेस्य कुलोत्तमापेक्षी बेटी—को—की आशिष पङ्कचे यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥

- ४ उ०प०सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा  
योग्य दादीजी श्री ई—को—का मिलना  
पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द  
चाहिये ॥
- ५ प्र०प० सिद्धि श्री युत — शुभस्थाने विराजमान  
ताई जी श्री पू—को—का मिलना पङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- ६ उ०प०स्वस्ति श्रीयुत—शुभस्थानेस्य बेटा—को  
की आशिष पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ॥
- ७ प्र०प०सिद्धि श्रीयुत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा  
योग्य जिठानी जी श्री पू—को—का  
पैरो पङ्कना पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ॥
- ८ उ०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थाने उचितोपमा  
योग्य देबरानी—को—का मिलनापङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- ९ प्र०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थाने विराज मान  
भावज—को—का मिलना पङ्कचे यहाँ  
आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥
- १० उ०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य विराज मान

## पत्रदीपिका

कुल मान्या ननद —को—का पैरों पड़ना  
पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चा-  
हिये ॥

११ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा  
योग्य नानी जी—को—का मिलना पङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

१२ उ०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थाने परम पूज्या  
धेवती बेटो—को—की आशिष पङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

१३ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा  
योग्य मामी—को—का मिलना पङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

१४ उ०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्य मानाधि  
कारिणीभानजी—को—की आशिष पङ्कचे  
यहाँ आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

१५ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य मैांसी जी  
श्री पू—को—का मिलना पङ्कचे यहाँ  
आनन्द है वहाँ आनन्द चाहिये ॥

१६ उ०प०स्वस्तिश्रीयुत—शुभस्थानेस्य बेटो—को—  
की आशिष पङ्कचे यहाँ आनन्द है वहाँ  
आनन्द चाहिये ॥

- १७ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्व भाव  
पूजा पात्र फूफी—को—का मिलना  
पङ्कचे यहां आनंद है वहां आनंद  
चाहिये ॥
- १८ उ०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्व प्रकार  
पूज्या भतीजी—को—की आशिष पङ्क-  
चे यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- १९ प्र०प०सिद्धि श्री युत—शुभस्थाने सर्वोपमायोग्य  
सास जी—को—का पैरो पड़ना पङ्कचे  
यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- २० उ०प०स्वस्तिश्रीयुत—शुभस्थानेस्य आत्तानुचारी  
पतोङ्ग—को—की आशिष पङ्कचे यहां  
आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥
- २१ प्र०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्य सर्वोपमा  
योग्य धारी बहनेली—को—की राम  
राम पङ्कचे यहां आनंद है वहां आनंद  
चाहिये ॥
- २२ उ०प०स्वस्ति श्री युत—शुभस्थानेस्य उचितोपमा  
योग्य बहनेली—को—की रामराम पङ्कचे  
यहां आनंद है वहां आनंद चाहिये ॥

६२

## पत्रदीपिका

- १३ प्र० प० सिद्धि श्री वृत—शुभस्थाने सर्वोपमा योग्य  
बड़ी समधन को छोटी समधन—की राम  
राम पङ्कचे यहाँ आनंद है वहाँ आनंद  
चाहिये ॥
- १४ उ० प० सिद्धि श्री वृत—शुभस्थाने सर्वोपमा  
योग्य छोटी समधन—को—की राम राम  
पङ्कचे यहाँ आनंद है वहाँ आनंद चा-  
हिये ॥

पत्रदीपिका  
नातेदारी ॥

६३

पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
गुरु	गुरुपत्नी	भाई	भावज
परदादा	परदादी	भतीजा	भतीजी
दादा	दादी	बहनोई	बहन
ताऊ	ताई	भान्जा	भान्जी
बाप	माता	बेटा	बहू
तचेरा भाई	तचेरी बहिन	पोता	पोती
चाचा	चाची	परपोता	परपोती
चचेरा भाई	चचेरी बहिन	दामाद	बेटी
फूफा	फूफी	नवासा	नवासी
फुफेरा भाई	फुफेरी बहिन	ससुर	सास
परनाना	परनानी	शाला	सरहज
नाना	नानी	साढ़ू	साखी
मामा	मामी	खसम	जोरू
मुमेरा भाई	मुमेरी बहिन	जेठ	जेठानी
खालू	खाला	जिठौता	जिठौतिन्
खलेरा भाई	खलेरी बहिन	देवर	देवरी
		देवरीता	रानी
		नन्दोई	

इति ॥

